

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 27, 2001 (शुक्रति 21, 1923)
 No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 2001 (KARTIKA 21, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग I—खण्ड 4
 [PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
 सम्बन्धित अधिसूचनाएं
 [Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry
 of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2001

सं. 628, दिनांक 20 सितम्बर 2001—राष्ट्रपति, भारतीय
 आयुध निर्माणी सेवा (86) के अधिकारी श्री प्रदीप गुप्ता का आयुध
 निर्माणी, अंबाला से स्थानांतरण होने पर उन्हें 4-9-2001
 (पूर्वाह्न) से 4-9-2006 तक अथवा अगले आदेश होने तक,
 इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर
 नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : एम सी एन :
 87) के अधिकारी डा. अवतार सिंह गुप्ता हरियाणा सरकार में
 स्थानांतरण होने पर उन्हें 21 अगस्त, 2001 (पूर्वाह्न) से 20
 अगस्त, 2006 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से
 जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त
 करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 83) के अधिकारी
 श्री एन. एम. गर्ग का मुख्य आयुक्त, आयकर, नई दिल्ली में
 स्थानांतरण होने पर उन्हें 30-8-2001 (पूर्वाह्न) से

29-8-2006 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो
 भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते
 हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारी तथा
 रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री मनव रे को 18 जून,
 2001 के पूर्वाह्न में अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय
 में डेस्क अधिकारी नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती
 अवर सचिव

सेना मुख्यालय

क्यू एम जी शास्त्री

सं. 629, दिनांक 24 सितम्बर 2001—राष्ट्रपति सहाय
 मंत्री सचिवालय सेवा नियमावली 2001 के नियम 10(2) के
 अंतर्गत नियुक्तिगत सेवाओं (संख्या 14/97) को मंत्रालय
 सहाय्यक निरीक्षण स्तर अधिकारी (ग्रुप "डी" राजस्व सेवा)

के रूप में उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से 23 अगस्त 2001 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने अथवा अधिकारी के सेवानिवृत्त होने में से जो भी पहले हो उस समय तक नियुक्त करते हैं :

श्रीमती राधा जी नैयर—26-02-2001 ।

श्री जी एस आर नरसिम्हम्—28-02-2001 ।

श्री ओम प्रकाश—26-02-2001 ।

श्री प्रेम नाथ—26-02-2001 ।

श्री हरबीर सिंह—26-02-2001 ।

श्री श्याम सुन्दर—26-02-2001 ।

श्री लक्ष्मण राम—26-02-2001 ।

श्री उत्तम चन्द पचौरी—26-02-2001 ।

श्री देवकी नन्दन—01-03-2001 ।

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की जा रही है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है ।

राष्ट्रपति महर्षि से सै म् सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत निम्नलिखित सहायकों (समूह "बी") को स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (समूह "बी" राजपत्रित) के रूप में उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से 23 अगस्त 2001 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने अथवा अधिकारी के सेवानिवृत्त होने में से जो भी पहले हो उस समय तक नियुक्त करते हैं :

श्री किशन कुमार—18-06-2001 ।

श्री गिरधर सिंह कश्यप—14-06-2001 ।

श्री एन के दास—15-06-2001 ।

श्री शवण कुमार—15-06-2001 ।

श्री सी एन जनेजा—14-07-2001 ।

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की जा रही है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है ।

नियुक्त बीजलेश व्यंगी

राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित "डीपीए 'ए'" को "अतिरिक्त प्रशासक" रूप "बी" राजपत्रित के पद पर दिनांक 31 अगस्त 2001 में नियुक्त करने हैं ।

नाम

सर्वश्री

जगदीश चन्द्र कालरा

एच. सी. वर्मा

शाही पीटर

अस्थायी नियुक्तियाँ

मंगल सेन

नीरा गनी श्रीमती

एम. राजन

कमला शर्मा नायर श्रीमती

मनवन्त सिंह भाटिया

(महानिदेशालय मध्यम सेना चिकित्सा सेवा) .

राष्ट्रपति महर्षि सहर्ष मूखी वंदना दत्त. सहायक को मध्यम आ मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत दिनांक 03 सितम्बर 2001 से अनुभाग अधिकारी के पद पर वर्तमान 6500-200-10500 में दिनांक 26 फरवरी 2002 तक, अथवा नियमित रूप से नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :—

(प्राधिकार : ए/05111/ए सी एस ओ/7(8)/2001/म.प्र. अ./का.—दिनांक 31 अगस्त 2001) ।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्र)

नवी दांच

नौसेना मुख्यालय

सं. 630, दिनांक 24 सितम्बर 2001—राष्ट्रपति सहर्ष श्री ए. के. सिंह, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी को मध्यम सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 30-07-2001 से 07-11-2001 तक या नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवानिवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

यह नियुक्ति पूर्णतया काम-चलाऊ व्यवस्था के आधार पर की जाती है तथा प्रशासनिक कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारी होने पर रद्द की जा सकती है ।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(थल सेना विभाग)

सं. 631, दिनांक 21 सितम्बर 2001

नियमित सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थायी ज्वरदार मेजर (गर्निंग टेकीनियन) के रैंक में

सुन्दर राम मेहर (जेसी-172442-के)—01 अगस्त 2001 ।

सुन्दर मुरेश कुमार (जेसी-172443-पी)—01 अगस्त 2001 ।

स्थायी सूबेदार मंजर (डाईक्टर) के रैंक में

सूबेदार वकिल प्रसाद (जंसी-690845-पी)—01 अप्रैल 2001 ।

स्थायी सूबेदार मंजर (नॉर्सिंग असिस्टेंट) के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र सिंह मुहाण (जंसी-691480-एक्स)—01 नवम्बर 2000 ।

सूबेदार अमार्मण (जंसी-691334-एक्स)—01 फरवरी 2001 ।

सूबेदार विनोद कुमार शर्मा (जंसी-691383-ए)—01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार ओम पाल सिंह (जंसी-691386-एन)—01 मई 2001 ।

सूबेदार कुन्दन सिंह अधिकारी (जंसी-691387-डब्ल्यू)—01 मई 2001 ।

सूबेदार ओम प्रकाश (जंसी-691402-ए)—01 जुलाई 2001 ।

स्थायी सूबेदार मंजर (एम्बुलेंस असिस्टेंट) के रैंक में

सूबेदार हीर सिंह चौधरी (जंसी-690963-एच)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार किशन सिंह (जंसी-690670-एक्स)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार भगवान सिंह रावत (जंसी-690770-एच)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार लक्ष्मी चन्द (जंसी-690772-एन)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार गोविन्द सिंह (जंसी-690654-ए)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार बंशनाथ चरण बहरा (जंसी-690673-एन)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार मदीर भन्सुरी (जंसी-690777-एम)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार सुरेश वन्त शर्मा (जंसी-690661-डब्ल्यू)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार बन्सी लाल (जंसी-690778-पी)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार हर किशन सिंह (जंसी-690831-पी)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार नन्द लाल बाग (जंसी-691039-पी)—01 जनवरी 2001 ।

सूबेदार देव सिंह (जंसी-690667-एक्स)—01 फरवरी 2001 ।

सूबेदार लाल सिंह (जंसी-690962-ए)—01 फरवरी 2001 ।

सूबेदार रतन सिंह (जंसी-690836-एन)—01 फरवरी 2001 ।

सूबेदार सूर्य सिंह (जंसी-690964-एन)—01 मार्च 2001 ।

सूबेदार बच्चन राम तूपर (जंसी-690837-डब्ल्यू)—01 मार्च 2001 ।

सूबेदार रामजी प्रसाद (जंसी-690795-पी)—01 मार्च 2001 ।

सूबेदार देव बहादुर छतरी (जंसी-690798-एच)—01 मार्च 2001 ।

सूबेदार हनुमान सिंह (जंसी-690834-एच)—01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार गोपाल सिंह (जंसी-690965-एन)—01 जून 2001 ।

सूबेदार मस्त राम (जंसी-690799-एन)—01 जून 2001 ।

सूबेदार चमन लाल (जंसी-691040-के)—01 जुलाई 2001 ।

सूबेदार रमेश चन्द्रा (जंसी-690844-एन)—01 जुलाई 2001 ।

सूबेदार मंगोरजन बिसदाम (जंसी-690801-एक्स)—01 2001 ।

स्थायी सूबेदार (नॉर्सिंग टेक्नीशियन) के रैंक में

नायब सूबेदार अखिलेश कुमार सक्सेना (जंसी-693058-वाई)—01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्रा सिंह (जंसी-693065-पी)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार गंगा विशन सिंह चौहान (जंसी-693074-डब्ल्यू)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार राजीव कुमार मिश्रा (जंसी-693078-एम)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश दत्त (जंसी-693241-एफ)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार राम मंहर सिंह (जंसी-693242-के)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार राम चन्द्रा सिंह (जंसी-693243-एम)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार मन्वीर सिंह (जंसी-693244-पी)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार भासकर आर (जंसी-693246-ए)—01 जून 2001 ।

स्थायी सूबेदार (डाईक्टर) के रैंक में

नायब सूबेदार पुन सिंह (जंसी-693083-एक्स)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार राम लखन शर्मा (जैसी-693084-ए)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार राम गोपाल (जैसी-693085-एच)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार गताप (जैसी-693086-एल)—01 मार्च 2001 ।

नायब सूबेदार वालुंकी सैठी (जैसी-693087-एन)—01 अप्रैल 2001 ।

नायब सूबेदार राम सरूप सिंह (जैसी-693088-डब्ल्यू)—01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार बी चीना मूधु (जैसी-693089-वाई)—01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार इन्द्र दात (जैसी-693090-एन)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार मोहिन्द्रा नाथ मोन्डल (जैसी-693081-डब्ल्यू)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार भरत सिंह (जैसी-693094-के)—01 अगस्त 2001 ।

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग अभिस्ट्रेंट) के रैंक में—

नायब सूबेदार सीमीर कुमार राणा (जैसी-692331-डब्ल्यू)—01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार रमेश चन्द्रा मोहनो (जैसी-692343-एल)—01 मार्च 2001 ।

नायब सूबेदार गतीश चन्द्रा माहू (जैसी-692344-एन)—01 अप्रैल 2001 ।

नायब सूबेदार मोहनन पी एम (जैसी-692345-डब्ल्यू)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार मज्जन सिंह भयान (जैसी-692346-वाई)—01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार राम कुमार (जैसी-602001-एक्स)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जैसी-692844-एल)—01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार नरेश कुमार प्रजाप (जैसी-692347-एफ)—01 जुलाई 2001 ।

स्थायी सूबेदार (एम्बुलेंस अभिस्ट्रेंट) के रैंक में—

नायब सूबेदार अबधेश कुमार सिंह (जैसी-692382-के)—01 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार झलक बहादुर राणा (जैसी-692703-डब्ल्यू)—01 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार जय नारायण सिंह (जैसी-692387-एच)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार रामेश्वर ओला (जैसी-692384-पी)—01 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार जय नारायण सिवारी (जैसी-692388-एल)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार बच्चन सिंह (जैसी-692389-एन)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार आनन्दा रामा वान्छडे (जैसी-692390-एच)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार कृष्णा कुमार रावत (जैसी-692391-एल)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार राम चन्द्रा जीना (जैसी-692392-एन)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार राम चरन (जैसी-692393-डब्ल्यू)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार परमात्मा नन्व सिंह चौहान (जैसी-692705-एफ)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार कृष्ण लाल साहू (जैसी-692394-वाई)—01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार भुरा राम अणरात (जैसी-692395-एफ)—01 मार्च 2001 ।

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार मिश्रा (जैसी-692396-के)—01 मार्च 2001 ।

नायब सूबेदार बन्सीधर यादव (जैसी-692706-के)—01 मार्च 2001 ।

नायब सूबेदार लक्ष्मण ईका (जैसी-692707-एम)—01 मार्च 2001 ।

नायब सूबेदार ओमकार सिंह सैनी (जैसी-692397-एम)—01 मार्च 2001 ।

नायब सूबेदार राम शंकर मिश्रा (जैसी-692398-पी)—01 अप्रैल 2001 ।

नायब सूबेदार मोहर सिंह (जैसी-692399-एक्स)—01 अप्रैल 2001 ।

नायब सूबेदार लाल सिंह (जैसी-692400-एफ)—01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार बच्चन सिंह (जैसी-692401-के)—01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार बबेन्द्रा सिंह (जैसी-692402-एम)—01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार भीमसेन नायक (जैसी-692403-पी)—01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार शिवाजी यादव (जैसी-692404-एक्स)—01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर थापा (जेसी-692405-ए)-01
मई 2001 ।

नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जेसी-692406-एच)-01 मई
2001 ।

नायब सूबेदार कान्त दास (जेसी-692020-एच)-01 जून
2001 ।

नायब सूबेदार सालस्कर सूर्य कान्त द्वाजी (जेसी-692054-
डब्ल्यू)-01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार कवीर बहादुर थापा (जेसी-692134-एन)-
01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार बंगाली राम (जेसी-692407-एल)-01 जून
2001 ।

नायब सूबेदार जाधव शिवाजी कृष्णा (जेसी-692708-पी)-
01 जून 2001 ।

नायब सूबेदार नारगुंडे रमेश शंकर राव (जेसी-692709-
एक्स)-01 जुलाई 2001 ।

नायब सूबेदार शयशंद अहमद (जेसी-692710-एम)-01
जुलाई 2001 ।

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-692711-पी)-01 जुलाई
2001 ।

नायब सूबेदार शमशत सिंह (जेसी-692712-एक्स)-01
जुलाई 2001 ।

स्थायी सुबेदार मेजर (कलक/जी डी) के रैंक में

सुबेदार रीशीपाल सिंह (जेसी-201369-एफ)-01
नवम्बर 2000

स्थायी सुबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सुबेदार गोविन्द प्रसाद टिवारी, (जेसी-690006-एस)
-01 जून 2000

सुबेदार अस्ताचलम पानूचानामो, (जेसी-690007-ए)
-01 अगस्त 2000

सुबेदार प्रमेश्वर दयाल कटिआर, (जेसी-680012-एल)
-01 अक्टूबर 2000

सुबेदार रामदीन (जेसी-690167-ए)-01 फरवरी
001

सुबेदार अमर सिंह, (जेसी-690015-वाई)-01
फरवरी 2001

सुबेदार जमादार, (जेसी-690170-ए)-01 फरवरी
2001

स्थायी सुबेदार (कलक/जी डी) के रैंक में

नायब सुबेदार प्रताप सिंह नदीया, (जेसी-691371-एल)
-01 अक्टूबर 2000

नायब सुबेदार जे राजेन्द्रन, (जेसी-691372-एन)-
01 अक्टूबर 2000

नायब सुबेदार मोहना कुमारन नायर के, (जे सी-691373
डब्ल्यू)-01 अक्टूबर 2000

नायब सुबेदार बलबीरसिंह बिष्ट, (जे सी-691374-वाई)
-01 नवम्बर 2000

नायब सुबेदार राजेन्द्रन बी (जेसी-691404-एल)-01
नवम्बर 2000

नायब सुबेदार राम फल, (जेसी-691506-एफ)-01
नवम्बर 2000

नायब सुबेदार राम प्रसाद, (जेसी-691405-एन)-01
नवम्बर 2000

नायब सुबेदार अशोक कुमार प्रधान, (जेसी-691406-
डब्ल्यू)-01 नवम्बर 2000

नायब सुबेदार लक्ष्मी नारायण हाजरा, (जेसी-691841
एल)-01 दिसम्बर 2000

नायब सुबेदार रती पाल सिंह, (जेसी-691842-एन)-
01 दिसम्बर 2000

नायब सुबेदार राम विकास यादव, (जेसी-691843-डब्ल्यू)
-01 दिसम्बर 2000

नायब सुबेदार कुन्तो रमन बी, (जेसी-691508-एम)-
01 जनवरी 2001

नायब सुबेदार हरी ओम सिंह, (जेसी-691509-पी)-
01 फरवरी 2001

नायब सुबेदार अशोक कुमार, (जेसी-691510-के)-
01 फरवरी 2001

नायब सुबेदार रमेश चन्द्र दलाल (जेसी-691511-एम)
01 फरवरी 2001

स्थायी सुबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सुबेदार मालेक रफीक भाई दाबु भाई, (जेसी-
691666-एफ)-01 अगस्त 2000

नायब सुबेदार त्रिविक सिंह, (जेसी-691667-के)-01
सितम्बर 2000

नायब सुबेदार श्री कुमार (जेसी-691739-एच)-01
सितम्बर 2000

नायब सुबेदार बेबी ओ (जेसी-691867-) -01
सितम्बर 2000

नायब सुबेदार सुनील कुमार शर्मा, (जेसी-691868-एच)
-01 अक्टूबर 2000

नायब सूबेदार धानू राम नाथ, (जेसी-691935-एच)--
01 नवम्बर 2000

नायब सूबेदार जोशी विजय कुमार नारायण, (जेसी-
691936-एल)--01 फरवरी 2001

नायब सूबेदार मोती लाल पाण्डे, (जेसी-691937-एन)
--01 फरवरी 2001

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार, (जेसी-691973-वाई)--
01 फरवरी 2001

नायब सूबेदार (कलंक/जी डी) के रैंक में

हवलदार मोहम्मद खालिद, (नं० 13948730-वाई,
अब जेसी-693359-वाई)--11 सितम्बर 2000*

हवलदार कदम सिंह सैनी, (नं० 13949045-ए, अब
जेसी-693560-एन)--08 सितम्बर 2000*

हवलदार राम आम्बेक, (नं० 13949407-डब्ल्यू, अब
जेसी-693618-ए)--06 दिसम्बर 2000*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जायेगी)

हवलदार अजीत सिंह चीलर, (नं० 13949590-के अब
जेसी-693577-एफ)--16 अक्टूबर 2000

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव
डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2000 से दी जायेगी)

हवलदार जनार्दनतन पिल्लै के पी, (नं० 13949924-एन
अब जेसी-693579-एम)--07 नवम्बर 2000*

हवलदार मोरेशीगाड़ी रामा मोहन रेड्डी, (नं० 13948895
-एक्स अब जेसी-693619-एब)--29 नवम्बर 2000*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव
डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी)

हवलदार कमला प्रसाद सिंह, (नं० 13954856-पी अब
जेसी-693577के)--07 नवम्बर 2000

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2000 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार (नं० 13948158-डब्ल्यू अब जेसी
693620-एक्स)--05 जनवरी 2001

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव
डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी)

हवलदार बोरा फूलैया (नं० 13948090ए अब जेसी-
693621ए)--07 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार जय प्रकाश यादव (सं० 13953069एफ अब
जेसी-693580एफ)--02 नवम्बर, 2000।*

हवलदार ईश्वर सिंह गह्वरान (नं० 13953070डब्ल्यू
अब जेसी-693622एच)--16 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार सतीश कुमार (नं० 13953075पी अब जेसी-
693623एल)--21 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार रमवीर सिंह (नं० 1353083एन अब जेसी-
693593वाई)--20 नवम्बर, 2000।*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार वितारंजन कार (नं० 13953112एक्स अब
जेसी-693624एन)--01 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार विद्या नन्द (नं० 13953117डब्ल्यू अब जेसी-
693625डब्ल्यू)--04 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार जगजीत सिंह (नं० 13953122एफ अब जेसी-
693626वाई)--01 दिसम्बर, 2000।*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव
डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार दशरथ सिंह (नं० 13953126एक्स अब जेसी-
693670-एब)--01 फरवरी, 2001।*

हवलदार गोपीनाथन नायर टी० एन० (नं० 13953197
वाई अब जेसी-693671एल)--01 फरवरी, 2001।*

हवलदार पराद्यूत मेनगुप्ता (नं० 13953221-के अब
जेसी-693749एल)--01 फरवरी, 2001।*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी, 2001 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (एम के टी) के रैंक में

हवलदार सुमेर सिंह (नं० 13958711एफ अब जेसी-
693558डब्ल्यू)--25 अगस्त, 2001।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार भविदानन्द मिश्रा (नं० 13947346एल अब
जेसी-693592डब्ल्यू)--13 नवम्बर, 2000।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव
डाले ज्येष्ठता 29 मार्च, 99 से दी जायेगी)।

हवलदार होषियार सिंह (नं० 13958899एफ अब जेसी-
693581के)--22 अक्टूबर, 2000।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार लक्ष्मी प्रसाद (नं० 13956279एम अब जेसी-
693672एन)--23 जनवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार देव सिंह जीना (नं० 13956588पी अब जेसी
693627एफ)--01 नवम्बर, 2000।

(नायब सूबेदार के पद पर ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से
दी जायेगी)।

हवलदार सुरेश नाथ चौधे (नं० 13957864 वाई अब जेसी-693750ए)---19 फरवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी, 2001 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (कुक/अस्पताल) के रैंक में

हवलदार बन्धु मेखर प्रसाद (नं० 13956304ए अब जेसी-693628के)---21 दिसम्बर, 2000।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार बोनदादा नागा पापा राय (नं० 13454243-पी अब जेसी-693629एम)---19 दिसम्बर, 2000।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार आंमप्रकाशकुमार, (नं० 13957119-वाई अब जेसी-693630-एफ)---02 दिसम्बर 2000।*

हवलदार महाजन सिंह, (नं० 13949001 एच अब जेसी-693631-के)---04 दिसम्बर 2000।*

हवलदार महावीर सिंह, (नं० 13964400के अब जेसी-693632-एम)---01 दिसम्बर 2000।*

* (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी)

हवलदार विनय कुमार दाम (सं० 13946147 एल अब जे० सी०-693633 पी)---11 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार राम बाबू राना (सं० 13946137 एफ अब जे० सी०-693634 एक्स)---28 नवम्बर, 2000।*

हवलदार जोध राज (सं० 13947839 एम अब जे० सी०-693594 एफ)---21 नवम्बर, 2000।*

हवलदार बिक्रम सिंह (सं० 13949116 डब्ल्यू अब जे० सी०-693635ए)---11 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार अम्बेर महादुर राना (सं० 13949358 वाई अब जे० सी०-693636एच)---28 नवम्बर, 2000।*

हवलदार रोहित कुमार सावर (सं० 13955593 एन अब जे० सी०-693637एल)---18 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार लालम सिंह (सं० 13956687 एक्स अब जे० सी०-693638 एन)---15 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार कैलाश बन्दा शर्मा (सं० 13957136 वाई अब जे० सी०-693639 डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 2000।*

हवलदार अविनाश नन्द (सं० 13957350 एफ अब जे० सी०-693673 डब्ल्यू)---15 अक्टूबर, 2001।*

हवलदार ऋषि नाथ सिंह (सं० 13964350 के अब जे० सी०-693595 के)---21 नवम्बर, 2000।*

हवलदार रामा चरण दी० एन० (सं० 13956529एन अब जे० सी०-693640 एल)---27 नवम्बर, 2000।*

हवलदार ए० अनधीनी सांगी (सं० 13957833 वाई अब जे० सी०-693641 एन)---11 दिसम्बर, 2000।*

* (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरज भात (सं० 13955342 के अब जे० सी०-693751 एच)---12 फरवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार भुवन चन्द्रा (सं० 13957061 एम अब जे० सी०-693752 एल)---7 फरवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (एम्बुलेन्स अमिस्टेंट) के रैंक में

हवलदार लाल नारायण शर्मा (सं० 13940744 के अब जे० सी०-693554 ए)---4 नवम्बर, 2000।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रफूला कुमार सरकार (सं० 13941451 एल अब जे० सी०-693586 एच)---22 अगस्त, 2000।*

हवलदार सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह (सं० 13943381 डब्ल्यू अब जे० सी०-693555 एच)---6 सितम्बर, 2000।*

हवलदार लाला राम (सं० 13943689 के अब जे० सी०-693556 एल)---5 अगस्त, 2000।*

* (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार लाला राम राठोड़ (सं० 13943666 एच अब जे० सी०-693557 एन)---2 सितम्बर, 2000।*

हवलदार दलिव सिंह (सं० 13943769 एफ अब जे० सी०-693587 एल)---15 सितम्बर, 2000।*

* (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार सेठु राम मोता (सं० 13939017 ए अब जे० सी०-693588 एन)---7 नवम्बर, 2000।*

हवलदार शिव कुमार सिंह पाल तानी (सं० 13940241 वाई अब जे० सी०-693589 डब्ल्यू)---12 अक्टूबर, 2000।*

हवलदार चन्धू लाल (सं० 13940838 एफ अव जे० सं०-693590 एन) — 17 नवम्बर, 2000 ।*

हवलदार किशनवीर सिंह (सं० 13941779 एम अव जे० सी०-693591 एन) — 01 नवम्बर, 2000 ।*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार चन्दन सिंह (सं० 13940867 डब्ल्यू अव जे० सी०-693596 एम) — 06 जनवरी, 2001 ।*

हवलदार योगा नन्द राय (सं० 13942661 एक्स अव जे० सी०-693597 पी) — 20 नवम्बर, 2000 ।*

हवलदार वनवारी लाल (सं० 13944190 एन अव जे० सी०-693598 एक्स) — 02 दिसम्बर, 2000 ।*

हवलदार कैलाश सिंह (सं० 13944188 डब्ल्यू अव जे० सी०-693599 ए) — 04 नवम्बर, 2000 ।*

हवलदार एल० नारैन कुमार सिंघा (सं० 13944238 डब्ल्यू अव जे० सी०-693600 के) — 29 नवम्बर, 2000 ।*

हवलदार डी० चन्द्रा कण्ठ (सं० 13944291 एफ अव जे० सी०-693601 एम) — 18 नवम्बर, 2000 ।

हवलदार पवित्रा कुमार सिंघा (सं० 13944330 पी अव जे० सी०-693602 पी) — 17 नवम्बर, 2000 ।*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार सोमा मेखरत नायर ए० आर० (सं० 13944343 एम अव जे० सी०-693603 एक्स) — 27 दिसम्बर, 2000 ।*

हवलदार जीवन सिंह (नं० 13944363 ए अव जे० सी०-693604ए) — 01 दिसम्बर 2000*

हवलदार अनील कुमार सिरोही (नं० 13944366 एन अव जे० सी०-693605 एच) — 13 दिसम्बर 2000*

हवलदार जय पाल सिंह (नं० 13944362 एक्स अव जे० सी०-693606एन) — 11 दिसम्बर 2000*

हवलदार राजन बागै (नं० 13944403 डब्ल्यू अव जे० सी०-693607 एन) — 19 दिसम्बर 2000 ।*

हवलदार सोमन पिल्लै जी० (नं० 13944439 एफ अव जे० सी०-693608 डब्ल्यू) — 15 दिसम्बर 2000 *

हवलदार ग्रहमेश्वर राय (नं० 13944503 एफ अव जे० सी०-693609 वाई) — 01 दिसम्बर 2000 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार गाडो दमना हुपेन अजो साहिब (नं० 13944625 एल अव जे० सी०-693642 डब्ल्यू) — 01 जनवरी 2001

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2001 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (डाईवर) के रैंक में

हवलदार संगेअ नागथन यादव (नं० 13938434 ए अव जेसी-693615 एम) — 05 दिसम्बर 2000 *

हवलदार सुभाष चन्द्रा गिरि (नं० 13943496 के अव जे सी-693616 पी) — 01 दिसम्बर 2000*

हवलदार राम दाम मंडल (नं० 13943356 एक्स अव जे सी-693617 एक्स) — 22 दिसम्बर 2000*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (नभिग असिस्टेंट) के रैंक में

हवलदार गोविन्दामाप्पो सी (नं० 13945459 पी अव जे सी-693549 पी) — 14 जुलाई 2000

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार खोन जगदीश राम भाऊ (नं० 13945752 एम अव जे सी-693550 के) — 06 अगस्त 2000

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार शान्ती राजन गराई (नं० 13946319 एफ अव जे सी-693582 एम) — 18 अक्टूबर 2000 *

हवलदार भान्डेकर महादु गुलाबा (नं० 13942707 पी अव जे सी-693551 एम) — 30 अगस्त 2000 *

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्रकाश नाता रुक्मते (नं० 13946390 एच अव जे सी-693552 पी) — 01 सितम्बर 2000*

हवलदार सूरज कान्त प्रसाद सिंह (नं० 13946446 के अव जे सी-693583 पी) — 16 सितम्बर 2000 *

हवलदार कोराते बब्रुबाहन किशन राव (नं० 10118690 एच अव जे सी-693553 एक्स) — 04 सितम्बर 2000*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार नवल किशोर प्रसाद (नं० 13938319 ए अव जे सी-693584 एक्स) — 12 अक्टूबर 2000 *

हवलदार आनन्दा प्रसाद माहा (नं० 13941936 एन अव जे सी-693585 ए) — 09 नवम्बर 2000*

हवलदार प्रदीप के० (नं० 13939218 वाई अव जे सी-693610 एन) — 18 नवम्बर 2000*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार वज्र किशोर (नं० 13942058 पी अव जे सी-693611 डब्ल्यू) — 30 नवम्बर 2000 *

हवलदार खोत जसवंत महादेव (नं० 2771379 एक्स अब जे सी-693612 बाई)—17 नवम्बर 2000*

हवलदार रविन्द्रन पी० एम० (नं० 6373729 एक्स अब जे सी-693613 एफ)—22 नवम्बर 2000*

हवलदार गुरदयाल सिंह (सं० 13677385-ए अब जेसी-693614-के) —6 नवम्बर 2000*

*(नायब सूबेदार के पद पर खेतन और भर्तों पर बिना प्रभाव डाले अयोग्यता 1 नवम्बर 2000 से दी जायेगी)

एस० के० खुराना
अधर सचिव

थल सेना विभाग/एम जी ओ/ई एम ई कार्मिक

सं० 632, दिनांक 25 सितम्बर 2001—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ/नियुक्तियाँ करते हैं।

हवलदार से नायब सूबेदार कलक (जी डा) के रैंक में

शिव धरण (14549738ए अब जेसी-756067 एक्स)—1 जुलाई 2001

अकबर अली (14549788 एल अब जेसी-756069 एक्स)—1 जुलाई 2001

धियागराजन जी (14550161एक्स अब जेसी-756064 के)—1 जून 2001

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टैक के रैंक में

सुकुमार बिस्वास (14543234डब्ल्यू अब जेसी-755966 एम)—1 जून 2001

हवलदार से नायब सूबेदार फारमोर के रैंक में

एस रामा चन्धिरन (145 792ए अब जेसी-756076 बाई)—10 जुलाई 2001/1 जून 2001*

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

अशोक कुमार शर्मा (14550575 के अब जेसी-756088 एल)—6 जुलाई 2001/1 जून 2001*

मालती बासप्पा (14550823 पी अब जेसी-756090 एल)—1 जून 2001

उपेन चन्द्र गोयई (14551693के अब जेसी-756089 डब्ल्यू)—29 जून 2001/1 जून 2001*

सुरेन्द्र सिंह (14546232 डब्ल्यू अब जेसी-755910 ए)—9 जून 2001/1 फरवरी 2001*

हवलदार से नायब सूबेदार वो एम (एम वो) के रैंक में

देवी सिंह (14526881 ए अब जेसी-756024एच)—1 जून 2001

मंगतु राम (14527655पी अब जेसी-756025एल)—30 जून 2001/1 जून 2001*

जया कुमार एम (14625673 के अब जेसी-756028 बाई)—16 जुलाई 2001/1 जुलाई 2001*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट्रीशियन (एम बी) के रैंक में

धियागराजन ए (14525851डब्ल्यू अब जेसी-756030 डब्ल्यू)—01 जुलाई 2001

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (रडार) के रैंक में
प्रदीप कुमार टी पी (14532495के अब जेसी-756029 एफ)—01 जुलाई 2001

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

बाणा राम (14534803 एक्स अब जेसी-756086एच)—17 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001*

विशुपदा मिश्रा (14535191 एक्स अब जेसी-756087 एल)—01 जुलाई 2001

हवलदार से नायब सूबेदार अपहोलिस्टर के रैंक में

विजय कुमार सिंह (14527887एल अब जेसी-756020 एम)—22 जून 2001/01 मई 2001*

हवलदार से नायब सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में

समिर चन्द्र पील (14533404 एफ अब जेसी-755921 एम)—01 फरवरी 2001

सतपाल शर्मा (14534711 एल अब जेसी-756022 एक्स)—01 जून 2001

हरि नारायण (14534896 एक्स अब जेसी-756023 ए)—01 जून 2001

एच एम टी से नायब सूबेदार टैक्नीकल "ए" ग्रीकल के रैंक में

मयामवीर सिंह (14569120एच अब जेसी-756154 एल)—1 जुलाई 2001

सुरेन्द्र सिंह कुशवाह (14569345एल अब जेसी-756156 डब्ल्यू)—31 जुलाई 2001

एच एम टी से नायब सूबेदार टैक्नीकल "बी" ग्रीकल के रैंक में

महादेव नुली (14550848एफ अब जेसी-755974 एल)—30 जून 2001/01 मई 2001*

एम पीतमलई (14552376पी अब जेसी-755994 बाई)—18 जून 2001/01 जून 2001*

महेश कुमार शर्मा (14554814 एल अब जेसी-756039 एल)—07 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001*

एन.मुन्शीवरण (14547732 एन अब जे सी-755720 एन)—01 मार्च 2001 ।

राज सिंह (14551928 एन अब जे सी-755980 बाई)—01 जून 2001

बेनाम दयानिखन (14551426 एन अब जे सी-755977 बाई)—11 जुलाई 2001/01 जून 2001* ।

रघुराज सिंह (14553018 डब्ल्यू अब जे सी-756042 एन)—11 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

बबता राम पटेल (14553268 एन अब जे सी-756036 एन)—01 जून 2001 ।

राजेंद्र प्रसाद सिंह (14547801 एन अब जे सी-755862 एन)—01 मार्च 2001 ।

विजय कुमार टी (14554855 पी अब जे सी-756170 एन)—01 अगस्त 2001 ।

विजयेन्द्रा एम बी (14550781 एन अब जे सी-756033 के)—03 जुलाई 2001/01 मई 2001* ।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैक्नीकल "सी" क्लास के रैंक में

बलराम सिंह (14565731 ए अब जे सी-756046 एफ)—14 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

राम बीर शर्मा (14569600 एम अब जे सी-756051 एन)—18 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

अवाहर मल जाट (14565564 पी अब जे सी-756044 डब्ल्यू)—09 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

छोरे सिंह बिष्ट (14565664 ए अब जे सी-756045 बाई)—01 जुलाई 2001 ।

प्रवीण एम (14570663 एफ अब जे सी-756054 ए)—09 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

सुभाष चन्दर पाण्डे (14565067 एन अब जे सी-756043 एन)—11 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

मुन्नालाल भाट (14670604 पी अब जे सी-756053 एन)—10 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

बबनवीर सिंह (14570690 एन अब जे सी-756056 एन)—07 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

बलविश्व के एम (14570669 एन अब जे सी-756055 एन)—23 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैक्नीकल इन्सट्रुमेंट के रैंक में

किशोर राम (14584550 के अब जे सी-755936 पी)—01 मई 2001 ।

बीर सिंह (14598598 एन अब जे सी-755948 के)—01 जून 2001 ।

राग पाद सादव (14600193 बाई अब जे सी-754959 एम)—09 जून 2001/01 जून 2001* ।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैक्नीकल रेडियो के रैंक में

कणू राम (14569898 एम अब जे सी-755692 एम)—04 मार्च 2001/01 मार्च 2001* ।

हरश चन्द्र सिंह (14581408 पी अब जे सी-756096 एम)—16 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

अशोक कुमार राय (14575215 बाई अब जे सी-756016 के)—03 जुलाई 2001/01 जून 2001* ।

मुनीष कुमार (14571670 के अब जे सी-756011 एन)—01 मई 2001 ।

सुरेन्द्र कुमार (14565247 एन अब जे सी-756012 एन)—19 जुलाई 2001/01 जून 2001* ।

मोरे संभाजी निवरिती (14590861 एन अब जे सी-755801 एन)—09 जुलाई 2001/07 फरवरी 2001* ।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैक्नीकल (रडार) के रैंक में

अनिल कुमार सिंह (14592512 एन अब जे सी-756059 बाई)—05 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001* ।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैक्नीकल कंप्यूटर के रैंक में

चमन सिंह (14553532 ए अब जे सी-755761 एन)—01 अप्रैल 2001 ।

प्रवीण कुमार सिवाच (14566562 डब्ल्यू अब जे सी-755929 बाई)—03 अप्रैल 2001/01 अप्रैल 2001* ।

दिलिप चन्द्र (14544148 एन अब जे सी-755932 बाई)—25 अप्रैल 2001 ।

एच०एम०टी० से नायब सूबेदार टैक्नीकल इलेक्ट्रॉनियस के रैंक में

चन्द्रकान्त हलासी (14570292 के अब जे सी-755854 एम)—15 जून 2001/01 मई 2001 ।

बलबल सिंह (14558855 एम अब जे सी-756005 एन)—25 अप्रैल 2001 ।

सूरत सिंह (14515450 के अब जे सी-755850 डब्ल्यू)—25 अप्रैल 2001 ।

महेश चन्द्र शर्मा (14576407 एन अब जे सी-756098 एन)—01 जुलाई 2001 ।

दिवेन्द्र सिंह (14566302 एन अब जे सी-756142 डब्ल्यू)—01 अगस्त 2001 ।

*पिछली तारीख से प्यठना दो जनों है ।

हवलदार से नायब सुबेदार झाईवर (एम टी) के रैंक में
एस अरोकियम (14529842एल अब जे सी-756891एन)
—1 जुलाई 2001।

नराहरि सिन्हा (14529868एफ अब जे सी-756194
एम)—1 अगस्त 2001।

श्री कान्त त्रिवेदी (14529569पी अब जे सी-755991
एल)—23 जून 2001/1 जून 2001*।

राजेन्द्र सिंह (14528932एफ अब जे सी-755988
एल)—25 जून 2001/1 जून 2001*।

ए पिचार्ड (14529851एन अब जे सी-756092डब्ल्यू)
—12 जुलाई 2001/1 जुलाई 2001*।

बीर सिंह यादव (14529828ए अब जे सी-756093
वाई)—1 जुलाई 2001।

राधिका राम मिश्रा (14529860पी अब जे सी-756190
डब्ल्यू)—1 अगस्त 2001।

रामचंज सिंह यादव (14529881एल अब जे सी-
756198एच)—1 अगस्त 2001।

गोरख नाथ शर्मा (14529908एक्स अब जे सी-
756196एक्स)—1 अगस्त 2001।

हवलदार से नायब सुबेदार कर्क (जी डी) के रैंक में
अबदुल हफिज (14530916 एच अब जे सी-756109
वाई)—1 अगस्त 2001।

नरेश चन्द्रदान (14530994ए अब जे सी-756111
डब्ल्यू)—1 अगस्त 2001।

बीर पाल सिंह (14550744ए अब जे सी-756107
एन)—1 अगस्त 2001।

सन्देश्वर नाराइन श्रीवास्तव (14532022एल अब जे सी-
756102पी)—1 अगस्त 2001।

जगवीर सिंह (14550709 एक्स अब जे सी-756106
एल)—1 अगस्त 2001।

धिरेंद्र प्रसाद (14531526एम अब जे सी-756100
के)—1 अगस्त 2001।

किमुन देव चौहान (14532861एच अब जे सी-756104
ए)—1 अगस्त 2001।

वेद नारायण पान्डे (14531274 एम अब जे सी-
756103 एक्स)—1 अगस्त 2001।

असिम कुमार धाबल (14532517 एक्स अब जे सी-
756105 एच)—1 अगस्त 2001।

अनिल कुमार (14531572 एफ अब जे सी-756101
एम)—1 अगस्त 2001।

जोन वर्गिस (14547492 एन अब जे सी-756066
पी)—1 जुलाई 2001।

हवलदार से नायब सुबेदार एस के टी के रैंक में
जगेश्वर यादव (14543248 डब्ल्यू अब जे सी-
756071 ए)—1 जुलाई 2001।

सतबीर सिंह (14539001 एक्स अब जे सी-755629
एक्स)—1 फरवरी 2001।

सामू सिंह राठीर (14543279 डब्ल्यू अब जे सी-
756072 एच)—16 जुलाई 2001/1 जुलाई 2001*।

बिजया कुमार नायर के पी (14543283वाई अब जे
सी-756117 एक्स)—1 अगस्त 2001।

महेश चन्द्र शर्मा (14543265 डब्ल्यू अब जे सी-
756113 एफ)—1 अगस्त 2001।

लोहियाकसन के पी (14542739 ए अब जे सी-
755958 एन)—22 जून 2001/1 मई 2001*।

शिवजी प्रसाद (14543286 एम अब जे सी-756181
पी)—1 अगस्त 2001।

सकीकर सुनिल ट्रिम्बक (14543257 एक्स अब जे सी-
756112 वाई)—1 अगस्त 2001।

हवलदार से नायब सुबेदार आरमोरे के रैंक में
मुरारी कुमार (14539677 ए अब जे सी-755961
एन)—9 जुलाई 2001/1 मई 2001।

ठाकुर सिंह गुर्जर (14540062 एफ अब जे सी-
756082 एम)—12 जुलाई 2001/1 जुलाई 2001*।

मंगल सिंह (14539661 पी अब जे सी-756074
एल)—1 मई 2001।

बालकृष्ण त्रिपाठी (14540227 पी अब जे सी-
756129 एम)—1 अगस्त 2001।

राजिन्द्र सिंह (14539536 एल अब जे सी-756073 एल)
1 अप्रैल 2001।

दिनेश प्रसाद मिश्रा (14538930 के अब जे सी-756120
एक्स) 23 जुलाई 2001/1 दिसम्बर 2000*।

ओमपाल (145398783 वाई अब जे सी-756078के)—
1 जुलाई 2001।

सुरेन्द्र सिंह (14540157 एफ अब जे सी-756079 एम)
1 जुलाई 2001।

सुरेश चन्द्र (14540745 पी अब जे सी-756130 एफ)
4 अगस्त 2001/1 अगस्त 2001*।

जय प्रकाश सिंह (14540555 एच अब जे सी-756124
एन)—1 अगस्त 2001*।

मिथिलेश कुमार तिवारी (14540404के अब जे सी-
756083पी)—1 जुलाई 2001।

दुबे गजेन्द्र लक्ष्मण प्रसाद (14540530 डब्ल्यू अब जेसी-756121 ए) 1 अगस्त 2001 ।

शिखार सी गुजनाल (14538524 के अब जेसी-756132 एम) 1 अगस्त 2001 ।

कृष्णा सिंह (14540084 ए अब जेसी-756122 एच) 1 अगस्त 2001 ।

कर्मवीर सिंह (14540614 के अब जे सी-756126 वाई) 1 अगस्त 2001 ।

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में ।

गिहानुल हक (14550696 एल अब जेसी-755919पी) 1 मई 2001 ।

सासुति कम्मनकोल (14551645 के अब जेसी-756176 के) 9 अगस्त 2001/1 जुलाई 2001 ।*

हवलदार से नायब सूबेदार बी एम (एम बी) के रैंक में

हबीबुल्ला के एच (14675265वाई अब जेसी-756026 एन) 01 जुलाई 2001 ।

साधु सिंह (14524266के अब जेसी-755942एच) 02 जुलाई 2001/01 जून 2001 ।*

हवलदार से नायब सूबेदार इलैक्ट्रीशियन (एम बी) के रैंक में

ब्रिज किशोर सिंह (14526563डब्ल्यू अब जेसी-756031 मई 01 जुलाई 2001 ।

मेवा साय (14675166डब्ल्यू अब जेसी-756032एफ) 10 जुलाई 2001/01 जुलाई 2001 ।*

हवलदार से नायब सूबेदार इन्सट्रुमेंट के रैंक में

अरविन्द राव (14543662पी अब जेसी-756138एन) 1 अगस्त 2001 ।

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (लाईन) के रैंक में

धनेश नन्दन सिंह (14538010एम अब जेसी-755837) 25 अप्रैल 2001 ।

हवलदार से नायब सूबेदार ई ई मैक के रैंक में

एस कुमारसन (14535625एम अब जेसी-755938ए) 13 जुलाई 2001/01 मई 2001 ।*

अगदीश चन्द (14535739एक्स अब जेसी-756136 एच) 01 अगस्त 2001 ।

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

होशियार सिंह (14534797पी अब जेसी-756085ए) 01 जुलाई 2001 ।

उमेश शर्मा (14535230एल अब जेसी-756173 डब्ल्यू) 01 अगस्त 2001 ।

श्रीपाल सिंह सोम (14535232डब्ल्यू अब जेसी-756174 वाई) 01 अगस्त 2001 ।

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

बी कण्ठियान्न (14534520डब्ल्यू अब जेसी-75592 5 एच) 13 जुलाई 2001/01 मई 2001 ।*

तेजा राम (14534670एम अब जेसी-755926एल) 09 जुलाई 2001/01 मई 2001 ।*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक्नीकल "ए" श्रेणीक के रैंक में

मोहन नायर के (14570244 के अब जेसी-756160 वाई) 1 अगस्त 2001 ।

बलबीर सिंह (14571099 के अब जेसी-756162 के) 1 अगस्त 2001 ।

बृज किशोर प्रसाद (14571384 एच अब जेसी-756165 एक्स) 1 अगस्त 2001 ।

रामअवतार गुर्जर (14571660 ए अब जेसी-756166 ए) 1 अगस्त 2001 ।

धाम सिंह (14571746 वाई अब जे०सी०-756167 एच)—01 अगस्त, 2001 ।

रामजीत प्रसाद (14571979 ए अब जे०सी०-756168 एल)—01 अगस्त, 2001 ।

ओम प्रकाश (14571114 एन अब जे०सी०-756164 पी)—03 अगस्त, 2001/01 अगस्त, 2001 ।*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक्नीकल "बी" श्रेणीक के रैंक में

रघुबीर सिंह (14548895 ए अब जे०सी०-755870 के)—21 जुलाई, 2001/01 अप्रैल, 2001 ।*

दुर्योधन सिंह (14550212 ए अब जे०सी०-756034 एम)—01 मई, 2001 ।

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक्नीकल "सी" श्रेणीक के रैंक में

विद्याधर मण्डल (14569178 ए अब जे०सी०-756050 के)—06 अगस्त, 2001/01 जुलाई, 2001 ।×

राम करण (14570250 एक्स अब जे०सी०-756052 पी)—09 जुलाई, 2001/01 जुलाई, 2001 ।×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक्नीकल इन्सट्रुमेंट के रैंक में

नरेश चन्द्र पाल (14598688 के अब जे० सी०-756061 डब्ल्यू)—01 जून, 2001 ।

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक्नीकल रेडियो के रैंक में

सतीश कुमार (14590407 एन अब जे० सी०-756185 एल)—01 अगस्त, 2001 ।

मोहित सिंह (14588530 एन अब जे०सी०-756184 एच)—01 अगस्त, 2001 ।

एच एम टी से नायब सूबेदार टैक्नीकल रडार के रैंक में

गार्डिवाडतायप्पा नामधेन (14583691 एम अब जे० सी०-756057 एन)---03 जुलाई, 2001/01 जुलाई, 2001 ।*

एच एम टी से नायब सूबेदार टैक्नीकल इलेक्ट्रिशियन के रैंक में

राम अवधेश सिंह (14568448 एक्स अब जे०सी०-756145के)---01 अगस्त, 2001 ।

बलवन्त सिंह (14579021 डब्ल्यू अब जे०सी०-756149 ए)---01 अगस्त, 2001 ।

राम चन्द्र (14566490 एक्स अब जेसी-756143 वाई)---01 अगस्त 2001 ।

*पिछली तारीख से ज्येष्ठता दी जाती है ।

त्रिलोक चन्द्र जैन
उप सचिव

सं० 633, दिनांक 26 सितम्बर 2001---राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं ।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गार्ड्स ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बीणन दास (जेसी-180659 एन)---01 मार्च 2001 ।

सूबेदार बुद्धि सिंह (जेसी-169324 एन)---01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार धन बहादुर खडका (जेसी-181724के)---01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार सुस्तान सिंह (जेसी-169113 एन)---01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार प्रकाश चन्द किसान (जेसी-180679 डब्ल्यू)---01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-184907 एन)---01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार चन्द्रपाल सिंह (जेसी-196360 ए)---01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार त्रिलोक सिंह (जेसी-402154 वाई)---01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार रामचन्द्रन एस (जेसी-184925एन)---01 मई 2001 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विजयपाल सिंह (जेसी-402492 डब्ल्यू)---01 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार मत्पेन्द्र कुमार शुकला (जेसी-402725 एम)---01 अप्रैल 2001 ।

नायब सूबेदार देव सिंह (जेसी-402072 डब्ल्यू)---26 अप्रैल 2001 ।

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-402356 ए)---01 मई 2001 ।

नायब सूबेदार बिड्डया बी यू (जेसी-402328 एन)---04 मई 2001 ।

नायब सूबेदार बर्गीत पी (जेसी-402378 वाई)---12 मई 2001 ।

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-402711 एम)---09 जून 2001 ।

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-402384 एम)---13 जून 2001 ।

नायब सूबेदार राजनाथ सिंह (जेसी-402388 एन)---13 जून 2001 ।

नायब सूबेदार अम्बोजम (जेसी-402150 एम)---04 जुलाई 2001 ।

नायब सूबेदार दर्या सिंह (जेसी-402152 एन)---01 अगस्त 2001 ।

सूबेदार वर्लक के रैंक में

नायब सूबेदार (कलंक) दिग्विजय सिंह (जेसी-402431 वाई)---01 जुलाई 2001 ।

नायब सूबेदार (संगीतज्ञ) के रैंक में

हवलदार (संगीतज्ञ) गणेश दत्त (सं० 13681993 वाई अब जेसी-403014 वाई)---01 अक्टूबर 2000 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार इन्द्र देव पाण्डेय (सं० 13682115 पी अब जेसी-403015 एफ)---11 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार रोहतास (13676782 एम अब जेसी-403016 के)---15 अप्रैल 2001 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जनवरी 2001 से दी जायेगी) ।

हवलदार नोरेन गोगई (सं० 13681380 वाई अब जेसी-403017 एम)---26 मई 2001 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2001 से दी जायेगी) ।

हवलदार हंस राज (सं० 13678822 एफ अब जेसी-403018 पी)---02 अप्रैल 2001 ।

हवलदार प्रेम बहादुर (सं० 13683477 एच अब जेसी-403019 एक्स) — 25 अप्रैल 2001 ।

हवलदार हेम राज सिंह (सं० 13677821 एम अब जेसी-403020 एम) — 01 मई 2001 ।

हवलदार राम जीवन (सं० 13677813 एन अब जेसी-403021 पी) — 01 जून 2001 ।

हवलदार सीत राम (सं० 13679244 के अब जेसी-403022 एक्स) — 13 जून 2001 ।

हवलदार पहल सिंह (सं० 13678837 के अब जेसी-403023 ए) — 01 जुलाई 2001 ।

हवलदार मदन सिंह जवाल (सं० 13678887 पी अब जेसी-403024 एच) — 01 जुलाई 2001 ।

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं० 13679106 एच अब जेसी-403025 एन) — 04 जुलाई 2001 ।

हवलदार सुरेश कुमार काँडले (14901786 डब्ल्यू अब जेसी-419405एन) — 24 मई 2001*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2001 से दी जायेगी)

हवलदार विराराजू जी एन (14902139 एच अब जेसी-419406 डब्ल्यू) — 17 जून 2001*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2001 से दी जायेगी)

हवलदार बलवीर सिंह (2471000 के अब जेसी-419407 वाई) — 4 जून 2001*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2001 से दी जायेगी) ।

जे० थोमस, अवर सचिव

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नवीन कुमार (14900991एल अब जेसी-419399एल) — 10 जुलाई 2001*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 फरवरी 2001 से दी जायेगी)

हवलदार कमल बहादुर गुरुंग (5748226 के अब जेसी-419400 पी) — 7 जून 2001*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी 2001 से दी जायेगी)

हवलदार सत्या पाल (13742184एक्स अब जेसी-419401एक्स) — 19 जून 2001*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2001 से दी जायेगी)

हवलदार जंग बहादुर राठौर (2469852ए अब जेसी-419402ए) — 4 जून 2001

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 मार्च 2001 से दी जायेगी)

हवलदार राम सिंह शेखावत (2873838 वाई अब जेसी-419403एच) — 24 मार्च 2001*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 मार्च 2001 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रेस्तु राम (2469855एन अब जेसी-419404 एल) — 4 जून 2001*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मार्च 2001 से दी जायेगी)

सं० 634, दिनांक 27 सितम्बर, 2001—राष्ट्रपति सहस्र निम्नलिखित ए.एम.सी. अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाइट लेफ्टि० से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

(श्रीमति) एस सम्पन (एम आर-06508ए) (22351)

ए.एम.सी.—4 दिसम्बर 1998

(श्रीमति) नीरज चरक (एम आर-07330 एफ) (23443), ए.एम.सी.—14 जनवरी 2000

(श्रीमति) परनीत कौर (एम आर-07389 एफ) (23448), ए.एम.सी.—14 जनवरी 2000

एम मुरली (एम आर-06669 एच) (23065), ए.एम.सी.—14 जनवरी 2000

चेल्सान राजेन्द्रन (एम आर-06907के) (23473), ए.एम.सी.—04 जुलाई 2001

एस ए खान (एम आर 06511ए) (22353), ए.एम.सी.—4 दिसम्बर 1998

के बी एन एस डोंड, प्रिगेडियर
उप महानिदेशक (कामिक)

सं० 635, दिनांक 20 सितम्बर 2001 राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारी तथा रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री बी०के० सक्सेना की अधिवृत्तिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 अगस्त, 2001 अवकाश से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं ।

बी० सरस्वती
अवर सचिव

सेना जगता

गृहपल

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

(महानिदेशालय भण्डार सेवा चिकित्सा सेवा)

सं० 630, दिनांक 24 सितम्बर, 2001—निवृत्त की आयु सीमा (60 वर्ष) प्राप्त करने पर सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा महानिदेशालय में कार्यरत श्री वी० वी० अग्रवाल, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, को दिनांक 31-7-2001 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त किया गया तथा दिनांक 1-8-2001 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किया गया।

सं० ए-22012/1/2001-स्थान-1—नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर, 2001।

सं० 637—इन प्रभाग के 6 जुलाई, 2001 के भूमिसंयक राजपत्र अधिसूचना के प्रारूप में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

के स्थान पर	पढ़ें
“उनकी कार्य अवधि अर्थात् 20-9-2001 या अगले आदेश होने तक”।	“उनकी कार्य अवधि अर्थात् 20-9-2002 या अगले आदेश होने तक”।

(चीथी पंक्ति)

जैप सभी प्रावधानों समान हैं।

सन्तोष दासगुप्ता

एम० सी० लूथर,

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्र)

उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th October 2001

No. 628, dated 20th September 2001.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Gupta, IOFS (86) on transfer from the Ordnance Factory, Ambajhari, as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 04-09-2001 (A/N) upto 04-09-2006 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Dr. Avtar Singh, IAS (HY : SCS : 87) on transfer from the Government of Haryana, as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 21-8-2001 (F/N) upto 20-8-2006 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri R. M. Garg, IRS (IT : 83) on transfer from the Chief Commissioner of Income Tax, New Delhi, as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 30-8-2001 (F/N) upto 29-8-2006 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Manab Ray, Section Officer, borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Desk Officer in the same Ministry w.e.f. the forenoon of June 18, 2001 until further orders.

V. SARASWATHY
Under Secy.

ARMY HEADQUARTERS

OMG's BRANCH

No. 629, dated 24th September 2001.—The President is pleased to appoint the following Assistants (Group 'B') of AFHQ Civil Service as Officiating Assistant Civilian Staff Officers (Group 'B' Gazetted) under rule 10 (2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 from the dates mentioned against their names to 23 Aug 2001 or till regular incumbent becomes available or till such time the individual retires, whichever is earlier :—

Smt. Radha G. Nair wef 26-2-2001.

Shri P S R Narasimham wef 28-2-2001

Shri Om Prakash wef 26-2-2001.

Shri Prem Nath wef 26-2-2001.

Shri Harbir Singh wef 26-2-2001.

Shri Shyam Sunder wef 26-2-2001.

Shri Lachman Dass wef 26-2-2001.

Shri Uttam Chand Pachori wef 26-2-2001

Shri Devki Nandan wef 01-3-2001.

These appointments are purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to appoint the following Assistants (Group 'B') of AFHQ Civil Service as Officiating Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B' Gazetted) under rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 from the dates mentioned against their names to 23 Aug 2001 or till regular incumbent becomes available or till such time the individual retires, whichever is earlier :—

Shri Kishan Kumar wef 18-6-2001.

Shri Girvar Singh Kashyap wef 14-6-2001.

Shri N K Das wef 15-6-2001.

Shri Sarwan Kumar wef 15-6-2001.

Shri C L Juneja wef 14-7-2001.

These appointments are purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to appoint following personnel from DPA 'A' to Junior Programmer Group 'B' Gazetted with effect from 31 August 2001.

Shri JC Kalra

Shri HC Bansal

Shri Shaji Peeter

Shri Kalyanjit Chattopadhyay

Shri Mangal Sain

Smt. Neera Rani

Shri M Rajan
Smt. Kamla Rani Nayyar
Shri SS Bhatia

DGAFMS

The President is pleased to appoint Ms Vandana Dubé, Assistant, as officiating Section Officer, in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 with effect from 3 Sep 2001 for the period upto 26 Feb 2002 or till regular incumbents become available, whichever is earlier.

(Authority : CAO/P-1 note No. A/05111 ACSO/10 (2) 2001/CAO/P-1 dated 31-08-2001).

SANTOSH DASGUPTA
Dy CAO (Admn)

NAVY BRANCH

NAVAL HEADQUARTERS

No. 630, dated 24th September 2001.—The President is pleased to appoint Shri AK Singh, Assistant Civilian Staff Officer as Officiating Civilian Staff Officer under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 w.e.f. 30 Jul 2001 to 07 Nov 2001 or till such time individual retires whichever is earlier.

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

SANTOSH DASGUPTA
Dy Chief Administrative Officer (A)

ARMY BRANCH

No. 631, dated 21st September 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be substantive Subedar Major (Nursing Technician)
Subedar Ram Mehar (JC-172442K), 01 Apr 2001.
Subedar Suresh Kumar (JC-172443P), 01 Apr 2001.

To be substantive Subedar Major (Driver)

Subedar Vakil Prasad (JC-690845P), 01 Apr 2001.

To be substantive Subedar Major (Nursing Assistant)

Subedar Rajender Singh Suhag (JC-691480X), 01 Nov 2000.

Subedar Amasaiah (JC-691334X), 01 Feb 2001.

Subedar Binod Kumar Sharma (JC-691383A), 01 Apr 2001.

Subedar Om Pal Singh (JC-691386N), 01 May 2001.

Subedar Kundan Singh Adhikari (JC-691387W), 01 May 2001.

Subedar Om Parkash (JC-691402A), 01 Jul 2001.

To be substantive Subedar Major (Ambulance Assistant)

Subedar Heer Singh Chaudhary (JC-690963H), 01 Dec 2000.

Subedar Kishan Singh (JC-690670X), 01 Dec 2000.

Subedar Bhagwan Singh Rawat (JC-690770H), 01 Jan 2001.

Subedar Lachmi Choud (JC-690772N), 01 Jan 2001.

Subedar Govind Singh (JC-690654A), 01 Jan 2001.

Subedar Parbhat Chetan Pehera (JC-690673I), 01 Jan 2001.

Subedar Manu Mathani (JC-690777M), 01 Jan 2001.

Subedar Suresh Dutt Sharma (JC-690661W), 01 Jan 2001.

Subedar Bansi Lal (JC-690778P), 01 Jan 2001.

Subedar Har Kishan Singh (JC-690831P), 01 Jan 2001.

Subedar Nand Lal Das (JC-691035P), 01 Jan 2001.

Subedar Dev Singh (JC-690667X), 01 Feb 2001.

Subedar Lal Singh (JC-690962A), 01 Feb 2001.

Subedar Rattan Singh (JC-690836N), 01 Feb 2001.

Subedar Saroop Singh (JC-690964L), 01 Mar 2001.

Subedar Bachan Ram Tuppar (JC-690837W), 01 Mar 2001.

Subedar Ramji Prasad (JC-690795P), 01 Mar 2001.

Subedar Dew Bahadur Chhetri (JC-690798H), 01 Mar 2001.

Subedar Hanuman Singh (JC-690834H), 01 Apr 2001.

Subedar Gopal Singh (JC-690965N), 01 Jun 2001.

Subedar Mast Ram (JC-690799L), 01 Jun 2001.

Subedar Chaman Lal (JC-691040K), 01 Jul 2001.

Subedar Ramesh Chandra (JC-690844N), 01 Jul 2001.

Subedar Manoranjan Biswas (JC-690801X), 01 Jul 2001.

To be substantive Subedar (Nursing Technician)

Naib Subedar Akhlesh Kumar Saxena (JC-693058Y), 01 Jun 2000.

Naib Subedar Dinesh Chandra Singh (JC-693065P), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Ganga Bishan Singh Choulhan (JC-693074W), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Rajeev Kumar Mishra (JC-693078M), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Om Prakash Datt (JC-693241F), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Ram Mehar Singh (JC-693242K), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Ram Chandra Singh (JC-693243M), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Satbir Singh Panwar (JC-693244P), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Bhaskar R (JC-693246A), 01 Jun 2001.

To be substantive Subedar (Driver)

Naib Subedar Puran Singh (JC-693083X), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Ram Laxhan Sharma (JC-693084A), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Ram Gopal (JC-693085H), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Pratap (JC-693086L), 01 Mar 2001.

Naib Subedar Balunki Serhi (JC-693087N), 01 Apr 2001.

Naib Subedar Ram Swaroop Singh (JC-693088-W), 01 May 2001.

Naib Subedar V China Muthu (JC-693089-Y), 01 May 2001.

Naib Subedar Inder Pal (JC-693090-N), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Monindra Nath Mondal (JC-693091-W), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Bharat Singh (JC-693094-K), 01 Aug 2001.

To be substantive Subedar (Nursing Assistant)

Naib Subedar Sisir Kumar Rana (JC-692331-W), 01 Aug 2000.

Naib Subedar Ramesh Chandra Mohanty (JC-692343-L), 01 Mar 2001.

Naib Subedar Satish Chandra Sahoo (JC-692344-N), 01 Apr 2001.

Naib Subedar Mohanan PM (JC-692345-W), 01 May 2001.

Naib Subedar Sajjan Singh Bhyan (JC-692346-Y), 01 May 2001.

Naib Subedar Ram Kumar (JC-692001-X), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Prem Singh (JC-692844-L), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Naresh Kumar Prajapat (JC-692347-F), 01 Jul 2001.

To be substantive Subedar (Ambulance Assistant)

Naib Subedar Awadhesh Kumar Singh (JC-692382-K), 01 Dec 2000.

Naib Subedar Jhalak Bahadur Malla (JC-692703-W), 01 Jan 2001.

Naib Subedar Jai Narain Singh (JC-692387-H), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Rameshwar Ojha (JC-692384-P), 01 Jan 2001.

Naib Subedar Jay Narayan Tiwari (JC-692388-L), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Bachan Singh (JC-692389-N), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Ananda Rama Wankhade (JC-692390-H), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Krishna Kumar Rawat (JC-692391-L), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Ram Chandra Jena (JC-692392-N), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Ram Charan (JC-692393-W), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Parmatma Nand Singh Chauhan (JC-692705-F), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Krishan Lal Sah (JC-692394-Y), 01 Feb 2001.

Naib Subedar Bhura Ram Jagrut (JC-692395-F), 01 Mar 2001.

Naib Subedar Pramod Kumar Mishra (JC-692396-K), 01 Mar 2001.

Naib Subedar Bansidhar Yadav (JC-692706-K), 01 Mar 2001.

Naib Subedar Laxhman Ekka (JC-692707-M), 01 Mar 2001.

Naib Subedar Omkar Singh Saini (JC-692397-M), 01 Mar 2001.

Naib Subedar Ram Shankar Misra (JC-692398-P), 01 Apr 2001.

Naib Subedar Mohar Singh (JC-692399-X), 01 Apr 2001.

Naib Subedar Lal Singh (JC-692400-F), 01 May 2001.

Naib Subedar Bachan Singh (JC-692401-K), 01 May 2001.

Naib Subedar Devendra Singh (JC-692402-M), 01 May 2001.

Naib Subedar Bhimasen Nayak (JC-692403-P), 01 May 2001.

Naib Subedar Shivji Yadav (JC-692404-X), 01 May 2001.

Naib Subedar Prem Gulshan Thapa (JC-692405-B), 01 May 2001.

Naib Subedar Mahipal Singh (JC-692406-ID), 01 May 2001.

Naib Subedar Chanan Das (JC-692070-H), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Salaskar Surya Kant Budhan (JC-692054-W), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Kabir Bahadur Thapa (JC-692114-N), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Bangali Ram (JC-692407-F), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Jadhav Shivaji Krishna (JC-692708-P), 01 Jun 2001.

Naib Subedar Nargunde Pamesh Shankar Rao (JC-692709-X), 01 Jul 2001.

Naib Subedar Shamshad Ahmad (JC-692710-M), 01 Jul 2001.

Naib Subedar Balbir Singh (JC-692711-P), 01 Jul 2001.

Naib Subedar Ganpat Singh (JC-692712-X), 01 Jul 2001.

To be substantive Subedar Major (Cik/GD)

Subedar Rishipal Singh (JC-201369F), 01st Nov 2000.

To be substantive Subedar Major (SKT)

Subedar Govind Prasad Tiwari (JC-690006X), 01st Jun 2000.

Subedar Arunachalam Ponnuchamy (JC-690007A), 01st Aug 2000.

Subedar Parmeshwar Dayal Katiar (JC-690012L), 01st Oct 2000.

Subedar Rimdeen (JC-690167A), 01st Feb 2001.

Subedar Amar Singh (JC-690015Y), 01st Feb 2001.

Subedar Jamadar (JC-690170A), 01st Feb 2001.

To be substantive Subedar (Cik/GD)

Naib Subedar Pratap Singh Nadia (JC-691371L), 01st Oct 2000.

Naib Subedar I Rajendran (JC-691372N), 01st Oct 2000.

Naib Subedar Mohana Kumaran Nair K (JC-691373W), 01st Oct 2000.

Naib Subedar Balbir Singh Bisht (JC-691374Y), 01st Nov 2000.

Naib Subedar Rajendran V (JC-691401L), 01st Nov 2000.

Naib Subedar Ram Phol (JC-691506F), 01st Nov 2000.

Naib Subedar Ram Prasad (JC-691405N), 01st Nov 2000.

Naib Subedar Ashok Kumar Pradhan (JC-691406W), 01st Nov 2000.

Naib Subedar Lokeshmi Narayan Hazra (JC-691841L), 01st Dec 2000.

Naib Subedar Rati Pal Singh (JC-691852N), 01st Dec 2000.

Naib Subedar Ram Bhis Yadav (JC-691843W), 01st Dec 2000.

Naib Subedar Kunhi Raman V (JC-691508M), 01st Jan 2001.

Naib Subedar Hari Om Singh (JC-691509P), 01st Feb 2001.

Naib Subedar Ashok Kumar (JC-691506K), 01st Feb 2001.

Naib Subedar Ramesh Chander Datta (JC-691511M), 01st Feb 2001.

To be substantive Subedar (SKT)

Naib Subedar Malick Rafik Bhai Dadu Bhai (JC-691666 I), 01st Aug 2000.

Naib Subedar Trilok Singh (JC-691667K), 01st Sep 2000.

Naib Subedar Sree Kumar (JC-691739H), 01st Sep 2000.

Naib Subedar Baby O (JC-691867A), 01st Sep 2000.

Naib Subedar Sunil Kumar Sharma (JC-691868H), 01st Oct 2000.

Naib Subedar Thanu Ram Nath (JC-691935H), 01st Nov 2000.

Naib Subedar Joshi Vijay Kumar Narayan (JC-691936L), 01st Feb 2001.

Naib Subedar Moti Lal Pandey (JC-691937N), 01st Feb 2001.

Naib Subedar Ravinder Kumar (JC-691973Y), 01st Feb 2001.

To be Naib Subedar (CK/GD)

Havildar Mohd Khalid (No. 13945730Y now JC-693359Y), 11 Sep 2000.*

Havildar Kadam Singh Saini (No. 13949045A now JC-693560N), 08 Sep 2000.*

Havildar Ram Abhilash (No. 13949407W now JC-693618A), 06 Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Ajit Singh Chhillar (No. 13949590K now JC-693577F), 16 Oct 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Janardanan Pillai KP (No. 13949924N now JC-693579M), 07 Nov 2000.

Havildar Morreddigari Rama Mohana Reddy (No. 13948895X now JC-693619H), 29 Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Kamala Prasad Singh (No. 13954856P now JC-693578K), 07 Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Suresh Kumar (No. 13948158W now JC-693620X), 05 Jan 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Borra Pallabai (No. 13948090A now JC-693621A), 07 Dec 2000.*

Havildar Jay Prakash Yadav (No. 13953069F now JC-693580F), 02 Nov 2000.*

Havildar Ishwar Singh Saharan (No. 13953070W now JC-693622H), 16 Dec 2000.*

Havildar Satish Kumar (No. 13953075P now JC-693623I), 21 Dec 2000.*

Havildar Ranbir Singh (No. 13953083N now JC-693593Y), 20 Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Chittaranjan Kar (No. 13953112X now JC-693624N), 01 Dec 2000.*

Havildar Vidya Nand (No. 13953117W now JC-693625W), 04 Dec 2000.*

Havildar Jagjit Singh (No. 13953122F now JC-693626Y), 01 Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Dasharatha Singh (No. 13953126X now JC-693670H), 01 Feb 2001.*

Havildar Gopinathan Nair TN (No. 13953197Y now JC-693671L), 01 Feb 2001.*

Havildar Prodyut Sengupta (No. 13953221K now JC-693749L), 01 Feb 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).

To be Naib Subedar (SKT)

Havildar Sumer Singh (No. 13958711F now JC-693558W), 25 Aug 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Sachchidanand Mishra (No. 13947346L now JC-693592W), 13 Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 29 Mar 99 without effect on pay and allces).

Havildar Hoshiyar Singh (No. 13958899F now JC-693581K), 22 Oct 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Laxmi Prasad (No. 13956279M now JC-693672N), 23 Jan 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Dev Singh Jeena (No. 13956588P now JC-693627F), 01 Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Suresh Nath Choubey (No. 13957864Y now JC-693750A), 19 Feb 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).

To be Naib Subedar (CK/H)

Havildar Chandra Sekhar Prasad (No. 13956304A now JC-693628K), 21 Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 02 Sep 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Bondada Naga Papa Rao (No. 13954243-P Now JC-693629-M)—19 Dec 2000.*

*(Granted notional seniority in the rank of Naib Subedar wef 02 Sep 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Om Prakash Kumar (No. 13957119-Y Now JC-693630-F)—02 Dec 2000.*

Havildar Mahajan Singh (No. 13949001-H Now JC-693631-K)—04 Dec 2000.*

Havildar Mahavir Singh (No. 13964400-K Now JC-693632-M)—01 Dec 2000.*

Havildar Bijoy Kumar Das (No. 13946147-L Now JC-693633-P)—11 Dec 2000.*

Havildar Ram Babu Rana (No. 13946137-F Now JC-693634-X)—28 Nov 2000.*

Havildar Jodh Raj (No. 13947839-M Now JC-693594-F)—21 Nov 2000.*

Havildar Bikram Singh (No. 13949116-W Now JC-693635-A)—11 Dec 2000.*

Havildar Amber Bahadur Rana (No. 13949358-Y Now JC-693636-H)—28 Nov 2000.*

Havildar Rohit Kumar Sabar (No. 13955593-N Now JC-693637-L)—18 Dec 2000.*

Havildar Lachham Singh (No. 13956687-X Now JC-693638-N)—15 Dec 2000.*

Havildar Kailash Chandra Sharma (No. 13957136-Y Now JC-693639-W)—01 Dec 2000.*

Havildar Achita Nand (No. 13957350-F Now JC-693673-W)—15 Jan 2001.*

Havildar Chhavi Nath Singh (No. 13964350-K Now JC-693595-K)—21 Nov 2000.*

Havildar Rama Chandran TN (No. 13956529-H Now JC-693640-L)—27 Nov 2000.*

Havildar A Anthoni Sami (No. 13957833-Y Now JC-693641-N)—11 Dec 2000.*

*(granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Havildar Suraj Bhan (No. 13955342-K Now JC-693751-H)—12 Feb 2001.*

Havildar Bhuvan Chandra (No. 13957061-M Now JC-693752-L)—07 Feb 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Nov 2000 without effect on pay and allces).

To be Naib Subedar (Ambulance Assistant)

Havildar Lal Narayan Sharma (No. 13940744-K now JC-693554A), 04th Sep 2000..

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Prafulla Kumar Sarkar (No. 13941451L now JC-693586H), 22nd Aug 2000.*

Havildar Surendra Prasad Singh (No. 13943381W now JC-693555H), 06th Sep 2000.*

Havildar Lala Ram (No. 13943689k now JC-693556L), 05th Aug 2000.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Lala Ram Rathaur (No. 13943666H now JC-693557N), 02nd Sep 2000.@

Havildar Dalip Singh (No. 13943769F now JC-693587L), 15th Sep 2000.@

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Sedu Ram Meena (No. 13939017A now JC-693588N), 07th Nov 2000.£

Havildar Shiv Kumar Singh Pal Ksnutri (No. 13940241Y Now JC-693589W), 12th Oct 2000.£

Havildar Chankhu Lal (No. 13940838F now JC-693590L), 17th Nov 2000.£

Havildar Kiranbir Singh (No. 13941779M now JC-693591N), 01st Nov 2000.£

£(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Chandan Singh (No. 13940867W now JC-693596M), 06th Jan 2001.**

Havildar Yoga Nand Ray (No. 13942661X now JC-693597P), 20th Nov 2000.**

Havildar Banwari Lal (No. 13944190N now JC-693598X), 02nd Dec 2000.**

Havildar Kailash Singh (No. 13944188W now JC-693599A), 04th Nov 2000.**

Havildar L Naren Kumar Singha (No. 13944238W now JC-693600K), 29th Nov 2000.**

Havildar D Chandra Kanth (No. 13944291F now JC-693601M), 18th Nov 2000.**

Havildar Pabitra Kumar Singha (No. 13944330P now JC-693602P), 17th Nov 2000.**

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Sooma Sekharan Nair AR (No. 13944343M now JC-693603X), 27th Dec 2000.@@

Havildar Jiwan Singh (No. 13944363A now JC-693604A), 01st Dec 2000.@@

Havildar Anil Kumar Sirohi (No. 13944366N now JC-693605H), 13th Dec 2000.@@

Havildar Jai Pal Singh (No. 173944362X now JC-693606L), 11th Dec 2000.@@

Havildar Rajen Baruah (No. 1394403W now JC-693607N), 19th Dec 2000.@@

Havildar Soman Pillai G (No. 13944439F now JC-693608W), 15th Dec 2000.@@

Havildar Brahmeshwar Rai (No. 13944503F now JC-693609Y), 01st Dec 2000.@@

@@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Gadi Damalla Hussain Ali Subeb (No. 13944625L now JC-693642W), 01st Jan 2001.

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001 without effect on pay & allces).

To be Naib Subedar (Driver)

Havildar Saroj Narayan Yadav (No. 13938434A now JC-693615M), 05th Dec 2000.££

Havildar Subhas Chandra Giri (No. 13943496K now JC-693616P), 01st Dec 2000.££

Havildar Ram Das Mandal (No. 13943356X now JC-693617X), 22 Dec 2000.££

££(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay & allces).

To be Naib Subedar (Nursing Assistant)

Havildar Govinda Samy C (No. 13945459P now 693549P), 14th July 2000.

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Khot Jagdish Ram Bhau (No. 13945752M now JC-693550K), 06th Aug 2000.££

££(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Shanti Ranjan Garai (No. 13946319F now JC-693582M), 18th Oct 2000.***

Havildar Bhandalkar Mahadu Gulaba (No. 13942707P now JC-693551M), 30th Aug 2000.***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Prakash Nana Rutkute (No. 13946390-H Now JC-693552-P), 01st Sep 2000.@@@

Havildar Suraj Kant Prasad Singh (No. 13946446-K Now JC-693583-P), 16th Sep 2000.@@@

Havildar Korutle Babruwahan Kishan Rao (No. 10118690-H Now JC-693553X), 04th Sep 2000.@@@

@@@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Nawal Kishor Prasad (No. 13938319-A Now JC-693584-E), 12th Oct 2000.£££

Havildar Ananda Prasad Saha (No. 13941936-N Now JC-693585-A), 09th Nov 2000.£££

Havildar Pradeep K. (No. 13939218-Y Now JC-693610-N), 18th Nov 2000.£££

£££ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2000 without effect on pay & allces).

Havildar Bijj Kishore (No. 13942058-P Now JC-693611-W), 30th Nov 2000.*@

Havildar Khot Yashwant Mahadeo (No. 2771379-X Now JC-693612-L), 17th Nov 2000.*@

Havildar Raveendran PM. (No. 6373729-H Now JC-693613-F), 22nd Nov 2000.*@

Havildar Gurdal Singh (No. 13677385-A Now JC-693614-K), 05th Nov 2000.*@

£££ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2000 without effect on pay & allces).

S. K. KHURANA, Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 632, dated 25th September 2001.—The President is pleased to make the following promotion :—

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Shiv Charun (14549738A Now JC-756067X), 01 Jul 2001.

Akbar Ali (14549788L Now JC-756069H), 01 Jul 2001.

Thiagarajan G (14550161X Now JC-756064K), 01 Jun 2001.

Hav to be Nb Sub SK Tech

Sukumar Biswas (14543234W Now JC-755966M), 01 Jun 2001.

Hav to be Nb Sub ARMR

S Rama Chandhiran (14539792A Now JC-756076Y), 10 Jul 2001/01 Jun 2001.*

Hav to be Nb Sub REC Mech

Ashok Kumar Sharma (14550575K Now JC-756088N), 06 Jul 2001/01 Jun 2001.*

Malagi Basappa (14550823P Now JC-756090L), 01 Jun 2001.

Upen Chandra Gogoi (14551693K Now JC-756089W), 29 Jun 2001/01 Jun 2001.*

Surender Singh (14546232W Now JC-755910A), 09 Jun 2001/01 Feb 2001.*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Devi Singh (14526881A Now JC-756024H), 01 Jun 2001.

Mangin Ram (14527655P Now JC-756025L), 30 Jun 2001/01 Jun 2001.*

Jaya Kumar S (14675673K Now JC-756028Y), 16 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Hav to be Nb Sub Flect (MV)

Thiagarajan A (14525851W Now JC-756030W), 01 Jul 2001

Hav to be Nb Sub TCM (RADAR)

Pradeep Kumar TP (14532495K Now JC-756029F), 01 Jul 2001.

Hav to be Nb Sub Welder

Baga Ram (14534803X Now JC-756086H), 17 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Bishu Pada Mishra (14536191X Now JC-756087L), 01 Jul 2001.

Hav to be Nb Sub UPHOL

Bijay Kumar Singh (14527887N Now JC-756020M), 22 Jun 2001/01 May 2001.*

Hav to be Nb Sub Machinist

Samir Chandra Paul (14533404F Now JC-755921M), 01 Feb 2001.

Satpal Sharma (14534711L Now JC-756022X), 01 Jun 2001.

Hari Narayan (14534896X Now JC-756023A), 01 Jun 2001.

HMT to be Nb Sub Tech 'A' VEH

Shyamvir Singh (14569120H Now JC-756154L), 01 Jul 2001.

Surendra Singh Kushwaha (14569345L Now JC-756156W), 01 Jul 2001.

HMT to be Nb Sub Tech 'B' VEH

Mahadev Nuli (14550848F Now JC-755974L), 30 Jun 2001/01 May 2001.*

M Ponmalai (14552376P Now JC-755994Y), 18 Jun 2000/01 Jun 2001.*

Mallesh Kumar Sharma (14554814L Now JC-756039L), 07 Jul 2001/01 Jul 2001.*

N Muralidharan (14547732A Now JC-755720N), 01 Mar 2001.

Raj Singh (14551928L Now JC-755980Y), 01 Jun 2001.

Keram Dnyaneshwar Chinteman (14551426H Now JC-755977Y), 11 Jul 2001/01 Jun 2001.*

Raghu Raj Singh (14553018W Now JC-756042L), 11 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Bacta Ram Patel (14553268X Now JC-756036X), 01 Jun 2001.

Rajendra Prasad Singh (14547801L Now JC-755862L), 01 Mar 2001.

Vijaya Kumar T (14554855P Now JC-756170H), 01 Aug 2001.

Vijayandra MV (14550781N Now JC-756033K), 03 Jul 2001/01 May 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech 'C' VEH

Ghan Shyam Singh (14565731A now JC-756046F), 14 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Ram Bir Sharma (14569600M now JC-756051M), 18 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Jawahar Mal Jat (14565564P now JC-756044W), 09 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Sher Singh Bisht (14565664A now JC-756045Y), 01 Jul 2001.

Prathcepan M (14570663I now JC-756054A), 09 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Subhash Chander Pandey (14565067L now JC-756043N), 11 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Munna Lal Bhat (14570604P now JC-756053X), 10 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Vanchan Vir Singh (14570690I now JC-756036L), 07 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Varghese KM (14570669H now JC-756055H), 23 Jul 2001/01 Jul 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech Inst

Kishan Ram (14584550K now JC-755936P), 01 May 2001.

Bir Singh (14598598H now JC-755948K), 01 Jun 2001.

Ram Pal Yadav (14600193Y now JC-755952M), 09 Jun 2001/01 Jun 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech (Radio)

Krishnu Ram (14569628M now JC-755962M), 04 Mar 2001/01 Mar 2001.*

Harish Chandra Singh (14581408P now JC-756096M), 16 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Ashok Kumar Roy (14575215Y now JC-756016K), 03 Jul 2001/01 Jun 2001.*

Sushil Kumar (14571670K now JC-756011L), 01 May 2001.

Surender Kumar (14565247N now JC-756012N), 19 Jul 2001/01 Jun 2001.*

More Sambhaji Nivritti (14590861N now JC-755801N), 09 Jul 2001/07 Feb 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech (Radar)

Anil Kumar Singh (14592512H now JC-756059Y), 05 Jul 2001/01 Jul 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech Computer

Chaman Singh (14553532A now JC-755761X), 01 Apr 2001.

Praveen Kumar Siwatch (14566562W now JC-755929Y), 03 Apr 2001/01 Apr 2001.*

Dilip Chandra (14544148X now JC-755932Y), 25 Apr 2001.

HMT to be Nb Sub Tech Elect

Chandrakant Halalli (14570292K now JC-755854M), 15 Jun 2001/01 May 2001.*

Balwant Singh (14558855M now JC-756005X), 25 Apr 2001.

Surat Singh (14565450K now JC-755850W), 25 Apr 2001.

Mahesh Chandra Sharma (14576407H now JC-756098X), 01 Jul 2001.

Virendra Singh (14566302L now JC-756142W), 01 Aug 2001.

*(Gtd ante-date of seniority).

Hav to be Sub Dvr (MT)

S Arockiam (14529842L now JC-756091N), 01 Jul 2001.

Naruhari Sinha (14529868F now JC-756194M), 01 Aug 2001.

Shri Kant Trivedi (14529569P now JC-755991L), 23 Jun 2001/01 Jun 2001.*

Rajender Singh (14528932F now JC-755988J), 25 Jun 2001/01 Jun 2001.*

A Pitchai (14529851N now JC-756092W), 12 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Bir Singh Yadav (14529828A now JC-756093Y), 01 Jul 2001.

Radhika Ram Mishra (14529860P now JC-756190W), 01 Aug 2001.

Ramehij Singh Yadav (14529881L now JC-756198H), 01 Aug 2001.

Gorakh Nath Sharma (14529908X now JC-756196X), 01 Aug 2001.

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Abdul Hafeez (14530916H now JC-756109Y), 01 Aug 2001.

Narash Chandra Das (14530994A now JC-756111W), 01 Aug 2001.

Vir Pal Singh (14550744A now JC-756107N), 01 Aug 2001.

Satyandra Narain Shrivastwa (14532022L now JC-756102P), 01 Aug 2001.

Jagvir Singh (14550709X now JC-756106L), 01 Aug 2001.

Dhirendra Prasad (14531526M now JC-756100K), 01 Aug 2001.

Kisun Det Chauhan (14532861H now JC-756104A), 01 Aug 2001.

Ved Narayan Pandey (14531274M now JC-756103X), 01 Aug 2001.

Asim Kumar Dhabal (14532517X now JC-756105H), 01 Aug 2001.

Anil Kumar (14531572F now JC-756101M), 01 Aug 2001.

John Varghese (14547492N now JC-756066P), 01 Jul 2001.

Hav to be Nb Sub SK Tech

Jageshwar Yadav (14543248W now JC-756071A), 01 Jul 2001.

Sathir Singh (14539001X now JC-755629X), 01 Feb 2001.

Samnu Singh Rathore (14543279W now JC-756072H), 16 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Vijaya Kumaran Nair KP (14543283Y now JC-756117X), 01 Aug 2001.

Mahesh Chandra Sharma (14543265W now JC-756113F), 01 Aug 2001.

Lohithakshan KP (14542739A now JC-755958N), 22 Jun 2001/01 May 2001.*

Shivji Prasad (14543286M now JC-756181P), 01 Aug 2001.

Sakokar Sunil Trimbak (14543257X now JC-756112Y), 01 Aug 2001.

Hav to be Nb Sub Armr

Murari Kumar (14539677A now JC-755961N), 09 Jul 2001/01 May 2001.*

Tbaktur Singh Gurjar (14540062F now JC-756082M), 12 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Mangal Singh (14539661P now JC-756074N), 01 May 2001.

Balkrishan Tripathi (14540227P now JC-756129M), 01 Aug 2001.

Rajinder Singh (14539536L now JC-756073L), 01 Apr 2001.

Dinesh Prasad Mishra (14538930K now JC-756120X), 23 Jul 2001/01 Dec 2000.*

Ompal (14539878Y now JC-756078K), 01 Jul 2001.

Sutinder Singh (14540157F now JC-756079M), 01 Jul 2001.

Suresh Chandra (14540745P now JC-756130F), 04 Aug 2001/01 Aug 2001.*

Jay Prakash Singh (14540555H now JC-756124N), 01 Aug 2001.

Mithilesh Kumar Tiwari (14540404K now JC-756083P), 01 Jul 2001.

Dube Rajendra Laxman Prasad (14540330W now JC-756121A), 01 Aug 2001.

Shivappa C Gugalal (14538524K now JC-756132M), 01 Aug 2001.

Krishna Singh (14540084A now JC-756122H), 01 Aug 2001.

Karmbir Singh (14540614K now JC-756126Y), 01 Aug 2001.

Hav to be Nb Sub Rec Mech

Raihanul Haque (14550696L now JC-755919P), 01 May 2001.

Maruti Kammarkol (14551645K now JC-756176K), 09 Aug 2001/01 Jul 2001.*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Habeebulla KH (14675265Y now JC-756026N), 01 Jul 2001.

Sadhoo Singh (14524266K now JC-755942H), 02 Jul 2001/01 Jun 2001.*

Hav to be Nb Sub Elect (MV)

Brij Kishore Singh (14526563W now JC-756031Y), 01 Jul 2001.

Mewa Lal (14675166W now JC-756032F), 10 Jul 2001/01 Jul 2001.*

Hav to be Nb Sub Inst Mech

Avinid Rao (14543662P now JC-756138N), 01 Aug 2001.

Hav to be Nb Sub TCM (Line)

Dhanesh Nandan Singh (14538010M now JC-755837M), 25 Apr 2001.

Hav to be Nb Sub EE Mech

S Kumaresan (1453625M now JC-755938A), 13 Jul 2001/01 May 2001.*

Jagdish Chand (14535739X now JC-756136H), 01 Aug 2001.

Hav to be Nb Sub Welder

Hoshnar Singh (14534797P now JC-756085A), 01 Jul 2001.

Umesh Sharma (14535230L now JC-756173W), 01 Aug 2001.

Shri Pal Singh Som (14535232W now JC-756174Y), 01 Aug 2001.

Hav to be Nb Sub Machinist

V Kandianan (14534520W now JC-755925H), 13 Jul 2001/01 May 2001.*

Ieja Ram (14534670M now JC-755926L), 09 Jul 2001/01 May 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech 'A' Veh

Mohanar Nair K (14570244K now JC-756160Y), 01 Aug 2001.

Balbir Singh (14571099K now JC-756162K), 01 Aug 2001.

Braj Kishor Prasad (14571384H now JC-756165X), 01 Aug 2001.

Ramavatar Gurjar (14571660A now JC-756166A), 01 Aug 2001.

Dham Singh (14571746Y now JC-756167H), 01 Aug 2001.

Ramjeet Prasad (14571979A now JC-756168L), 01 Aug 2001.

Om Prakash (14571114N now JC-756164P), 03 Aug 2001/01 Aug 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

Raghubir Singh (14548895A now JC-755870K), 21 Jul 2001/01 Apr 2001.*

Duryodhan Singh (14550212A now JC-756034M), 01 May 2001.

HMT to be Nb Sub Tech 'C' Veh

Bidyadhar Mandal (14569178A now JC-756050K), 06 Aug 2001/01 Jul 2001.*

Ram Karan (14570250X now JC-756052P), 09 Jul 2001/01 Jul 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech Inst

Naresh Chandra Pal (14598688K now JC-756061W), 01 Jun 2001.

HMT to be Nb Sub Tech Radio

Satish Kumar (14590407N now JC-756185L), 01 Aug 2001.

Mohinder Singh (14588530N now JC-756184H), 01 Aug 2001.

HMT to be Nb Sub Tech Radar

Gaikwad Tayappa Namdeo (14583691M now JC-756057N), 03 Jul 2001/01 Jul 2001.*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

Ram Awadhesh Singh (14568448X now JC-756145K), 01 Aug 2001.

Balwant Singh (14579021W now JC-756149A), 01 Aug 2001.

Ram Chandra (14566490X now JC-756143Y), 01 Aug 2001.

*(Gtd ante-date of seniority).

T. C. JAIN,
Dy Secy.

No. 633, dated 26th September 2001.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Infantry

Brigade of the Guards

To be Sub Maj

Sub Bishan Dass (JC-180659H), 1st Mar 2001.

Sub Budhi Singh (JC-169324L), 1st Apr 2001.

Sub Dhan Bahadur Khadka (JC-181724K), 01st Apr 2001.

Sub Sultan Singh (JC-169113H), 1st Apr 2001.
 Sub Prakash Chand Kishan (JC-180679W), 1st Apr 2001.
 Sub Prem Chand (JC-184907L), 1st Apr 2001.
 Sub Chandra Pal Singh (JC-196360A), 1st Apr 2001.
 Sub Trilok Singh (JC-402154Y), 1st Apr 2001.
 Sub Ramachandran S (JC-184925N), 1st May 2001.

To be Sub

Nb Sub Vijay Pal Singh (JC-402492W), 1st Jan 2001.
 Nb Sub Satyender Kumar Shukla (JC-402725M), 1st Apr 2001.
 Nb Sub Deb Singh (JC-402072W), 26th Apr 2001.
 Nb Sub Ram Kumar (JC-402356A), 1st May 2001.
 Nb Sub Biddappa BU (JC-402328N), 4th May 2001.
 Nb Sub Varghese P (JC-402378Y), 12th May 2001.
 Nb Sub Hans Raj (JC-402711M), 9th Jun 2001.
 Nb Sub Ashok Kumar (JC-402384M), 13th Jun 2001.
 Nb Sub Raj Nath Singh (JC-402388H), 13th Jun 2001.
 Nb Sub Amkhozam (JC-402150M), 4th Jul 2001.
 Nb Sub Darya Singh (JC-402152N), 1st Aug 2001.

To be Sub/Clk

Nb Sub/Clk Digvijai Singh (JC-402431Y), 1st Jul 2001.

To be Nb Sub (Musn)

Hav (Musn) Ganesh Dutt (No. 13681993Y now JC-403014Y), 1st Oct 2000.

To be Nb Sub

Hav Indra Deo Pandey (No. 13682115P now JC-403015F), 11th Dec 2000.

Hav Rohtas (No. 13676782M now JC-403016K), 15th Apr 2001.

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 19th Jan 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Noren Gogoi (No. 13681380Y now JC-403017M), 26th May 2001.

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st Apr 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Hans Raj (No. 13678822F now JC-403018P), 2nd Apr 2001.

Hav Prem Bahadur (No. 13683477H now JC-403019X), 25th Apr 2001.

Hav Hem Raj Singh (No. 13677821M now JC-403020M), 1st May 2001.

Hav Ram Jiwan (No. 13677813N now JC-403021P), 1st Jun 2001.

Hav Sis Ram (No. 13679244K now JC-403022X), 13th Jun 2001.

Hav Pahal Singh (No. 13678837K now JC-403023A), 1st Jul 2001.

Hav Madan Singh Jalal (No. 13678887P now JC-403024H), 1st Jul 2001.

Hav Ravindra Singh (No. 13679106H now JC-403025L), 4th Jul 2001.

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Nb Subedar

Hav Navin Kumar (149009911 now JC-4193991), 16th Jul 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 18th Feb 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Kamal Bahadur (5748226K now JC-419400P), 7th Jun 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20th Feb 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Satya Paul (13742184X now JC-419401X), 19th Jun 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Mar 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Jang Bahadur Rathor (2469852A now JC-419402A), 4th Jun 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4th Mar 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh Shekhawat (2873838Y now JC-419403H), 24th Mar 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4th Mar 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Brestu Ram (2469855W now JC-419404I), 4th Jun 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30th Mar 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Kumar Koundle (14901786W now JC-419405N), 24th May 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Apr 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Veeraraju G. W (14902139H now JC-419406W), 17th Jun 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Apr 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (2471000K now JC-419407Y), 04th Jun 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st May 2001 without effect on pay and allowances).

No. 634, dated 27th Sep 2001.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against them :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Flt Lt to be Sqn Ldr

(Mrs) S Sampath (MR-06508A) (22351) AMC, 04 Dec 1998.

(Mrs) Neeraj Charak (MR-07330F) (23443), AMC, 14 Jan 2000.

(Smt) Parneet Kaur (MR-07389F) (23448), AMC, 14 Jan 2000.

M Murali (MR-06659H) (23065), AMC, 14 Jan 2000.

Chellan Rajendran (MR-06907K) (23473), 04 Jul 2001.

MA Khan (MR-06511A) (22353) AMC, 04 Dec 1998.

KBNS DOD, Brigadier
Dy. DGAEMS (P).

No. 635, dated 20th September, 2001.—The President is pleased to retire Shri VK Saxena, CSS, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31-8-2001 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY, Under Secy.

ARMY HEADQUARTERS

DGAFMS

No. 636, dated 24th September, 2001.—On attaining the age of superannuation i.e., 60 years, Shri VB Agarwala, ACISO, DGAFMS, Ministry of Defence, retired from Government Service w.e.f. 31-07-2001 (A/N) and transferred to pension establishment w.e.f. 01-08-2001 (F/N).

SANTOSH DASGUPTA, Dy. CAO (Admn.)

CORRIGENDUM

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

No. 637, dated 7th September, 2001.—The following amendment to this Division DGN of even No. dated 6th July, 2001 is hereby authorised.

For

"Period of his tenure i.e. upto 20-9-2001 or until further orders" (in the 4th line).

Read

"Period of his tenure i.e. upto 20-9-2002 or until further orders.

All other entries remain unaltered.

M. C. LUTHER, Dy. Financial Adviser (E)